

वार्तालाप सी.डी. नं. 240, तारीख: 15.01.07, बेलगाछिया, कलकता

Discussion CD No.240 dated 15.01.07 at Belgachia, Calcutta

Kisi mataji nay poocha: *Baba, bhaktimarg may makar sankranti manaatey hain - yeh kya hai gyaan may? Bhaktimarg may makar sankranti din manaatey hain, Ganga may nahaata hain. Behad ka maana kya hai?*

Baba nay kaha: *Makkaar Shankar kee anti ho jaati hai.*

Kisi nay poocha: *Makkar ka matlab?*

Baba nay kaha: *Makkaar ka matlab hai, jo makkaari detaa hai. Arey! Shankar kee aatma bhi satopradhan, satosaamaanya, rajo aur tamo banti hai ki nahee? Jab tamo banti hai usko kahtey hain - "makkaar". Makkaarpanaa deta hai. Makkaarpaney ka ant ho jaataa hai.*

किसी माताजी ने पूछा – बाबा, भक्तिमार्ग में मकर सक्रांति दिन मनाते हैं – ये क्या है ज्ञान में? भक्तिमार्ग में मकर सक्रांति दिन मनाते हैं, गंगा में नहाते हैं। बेहद का माना क्या है?

बाबा ने कहा – मक्कार शंकर की अंति हो जाती है।

किसी ने पूछा – मक्कार का मतलब?

बाबा ने कहा – मक्कार का मतलब है – जो मक्कारी देता है। अरे! शंकर की आत्मा भी सतोप्रधान, सतोसामान्य, रजो और तमो बनती है कि नहीं? जब तमो बनती है, उसको कहते हैं – “मक्कार”। मक्कारपना देता है। मक्कारपने का अंत हो जाता है।

A mataji asked: Baba, Makar Sankranti is celebrated in the path of worship. What is that in terms of knowledge? Makar Sankranti day is celebrated in the path of worship. People bathe in the river Ganga. What does it mean in unlimited sense?

Baba said: The part of *Makkaar* Shankar ends.

Someone said: What does *Makkaar* mean?

Baba said: *Makkaar* means the one, who gives deceitfulness. Arey! Now, the soul of Shankar also becomes *satopradhan*, *satosaamaanya*, *rajo* and *tamo* or not? When he becomes *tamo*, he is called *makkaar* (deceitful). He gives deceitfulness (*makkaarpanaa*). Deceitfulness ends.

.....
Note: The words in italics are Hindi words. Some words have been added in the brackets by the translator for better understanding of the translation.